

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 68]

भोपाल, सोमवार दिनांक 29 जनवरी 2018—माघ 9, शक 1939

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2018

क्र. एफ-65 एनएन-03-2017-पांच-110.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद् बड़वानी जिला बड़वानी के माह जनवरी 2018 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं:—

स. क्र.	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक अंकों में	केवल पार्षद शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद् बड़वानी जिला-बड़वानी.	अध्यक्ष	—	—	लक्ष्मण चौहान	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	मिथुन यादव	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	मिता शिवेन्द्र निगम	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	रेखा बनडे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	सचिन चौहान	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	सुनिल यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7		पार्षद	6	छः	श्रीमती संगीता जैमन	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	श्रीमती संगीता गौतम शर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	शंकर बिलवाल	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	मुकेश जायसवाल	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	कैलाश जामसिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	सकुबाई	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	हसीना अबू तिगाले	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	अब्दुल मलीक कुरैशी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	सेवंती नंदकिशोर कुमावत (नंदू भैय्या)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पंद्रह	पवन यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
17		पार्षद	16	सोलह	सचिन पुरोहित	इंडियन नेशनल कांग्रेस
18		पार्षद	17	सत्रह	अजीत कौर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
19		पार्षद	18	अठारह	नन्दराम कुशवाह	भारतीय जनता पार्टी
20		पार्षद	19	उन्नीस	कुलसुम कपाडिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
21		पार्षद	20	बीस	मीनाक्षी मुकाती	भारतीय जनता पार्टी
22		पार्षद	21	इक्कीस	अमिता जोशी	भारतीय जनता पार्टी
23		पार्षद	22	बाईस	रीना देवेन्द्र साबले	भारतीय जनता पार्टी
24		पार्षद	23	तेईस	मीरा बाई	इंडियन नेशनल कांग्रेस
25		पार्षद	24	चौबीस	राकेश मकवाने	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-  
( सुनीता त्रिपाठी )  
सचिव,  
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2018

क्र. एफ-65-एनएन-03-2017-पांच-111.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक-37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद् सेंधवा जिला बड़वानी के माह जनवरी, 2018 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

स. क्र.	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	अंकों में	शब्दों में	(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद् सेंधवा, जिला-बड़वानी.	अध्यक्ष	—	—	बसन्ती बाई	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	सरला	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	प्रिन्स शर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	रूक्य्या बी मो. उमर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	रेखा भगवान	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	मेधा एकड़ी	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	लता बुधा सोनोने	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	अनिता धामोने	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	गोविन्द	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	इन्दुमती तिवारी (बड़ी अम्मा)	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	दिनेश सोनी	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	शबाना बी. शेख पति वली मोहम्मद शेख	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	विमलाबाई	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	कमल बंसीलाल	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	इल्मुद्दीन पिता समसुद्दीन मंसूरी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पंद्रह	इमरान मो. युसूफ	भारतीय जनता पार्टी
17		पार्षद	16	सोलह	सुनिता प्रकाश	भारतीय जनता पार्टी
18		पार्षद	17	सत्रह	मनोज जगदीश	भारतीय जनता पार्टी
19		पार्षद	18	अठारह	रूबीना पति सरफराज	भारतीय जनता पार्टी
20		पार्षद	19	उन्नीस	अशोक	भारतीय जनता पार्टी
21		पार्षद	20	बीस	दीपक	भारतीय जनता पार्टी
22		पार्षद	21	इक्कीस	सुधीर राजाराम	भारतीय जनता पार्टी
23		पार्षद	22	बाईस	सुनीता महेश	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24		पार्षद	23	तेईस	विष्णु नामदेव	भारतीय जनता पार्टी
25		पार्षद	24	चौबीस	अब्दुल शकील चंदीजा	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( सुनीता त्रिपाठी )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2018

क्र. एफ-65-एनएन-03-2017-पांच-112.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक-37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् अंजड, जिला बड़वानी के माह जनवरी, 2018 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

स. क्र.	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
			अंकों में	शब्दों में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद् अंजड, जिला-बड़वानी.	अध्यक्ष	—	—	संतोष शेखरचन्द पाटनी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	मुकेश मनोहर मोरे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	शरद ठाकुर	निर्दलीय
4		पार्षद	3	तीन	श्रीमती पुष्पा संजय परमार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	मंजुला पति राकेश पाटीदार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	सुशीला बाई राधेश्याम पटेल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	सुनीताबाई अमर सिंह माल्या	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	ग्यारसीबाई बाबूलाल पाटीदार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	धनकौर बाई राजाराम ठाकरे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	गायत्रीबाई सालकराम यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	कुलदीप पिता मगनलाल पाटीदार.	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	रन्छोड जिराती	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	महादेव धनगर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	दुर्गा साधुराम वर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15		पार्षद	14	चौदह	कार्तिकेय-हीरालाल चौहान	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पंद्रह	रमेश मकुन्द	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( सुनीता त्रिपाठी )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2018

क्र. एफ-65-एनएन-03-2017-पांच-113.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक-37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् खेतिया, जिला बड़वानी के माह जनवरी, 2018 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

स. क्र.	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	अंकों में	शब्दों में	(6)	(7)
1	नगर परिषद् खेतिया, जिला-बड़वानी.	अध्यक्ष	—	—	चंदनबाई अरविंद बागुल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	प्रदीप मधुसूदन निकुंम (छोटु भाई).	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	शोभा सुर्यकांत येसीकर	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	हिराबाई रमेश सोनिस	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	उमा उद्धव पटेल	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	हंसाबाई मदनलाल जैन	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	लताबाई देवराम सोनी	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	अलकाबाई मनोहर परदेशी	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	प्रकाश हिरालाल महाले (अप्पा)	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	दुर्गा गणेश	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	गणेश गिरधर पवार	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	मोहम्मद जुबेर पिंजारी	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	राकेश सुदाम चौधरी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	अनिल भगवान चौधरी	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15		पार्षद	14	चौदह	दिपाली पति धनराज चौधरी	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पंद्रह	सुरेश जगन चौहान	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( सुनीता त्रिपाठी )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2018

क्र. एफ-65-एनएन-03-2017-पांच-114.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक-37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् पलसूद, जिला बड़वानी के माह जनवरी, 2018 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

स. क्र.	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
			अंकों में	शब्दों में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद् पलसूद, जिला-बड़वानी.	अध्यक्ष	—	—	रमा नरेन्द्र वास्कले	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	जयराम बजारिया	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	सरीता संजय बर्डे	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	वनिता सुनील सेन	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	सुनिल रामेश्वर गोले	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	सुन्दर कालु नायक	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	रेखा देवकीनंदन राठौड़	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	पूनम मनोहर गोले	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	गायत्री जितेन्द्र गोले	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	सिराज बाबु खान	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	गीता मनोज राठौड़	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	संतोष गेंदालाल चिताबले	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	देवेन्द्र सोलंकी	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	सुकलाल गेमसिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15		पार्षद	14	चौदह	वेलबाई मोतीराम	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पंद्रह	पिंकीबाई सचिन चौहान	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( सुनीता त्रिपाठी )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

**अधिसूचना**

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2018

क्र. एफ-65-एनएन-03-2017-पांच-115.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक-37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् पानसेमल, जिला बड़वानी के माह जनवरी, 2018 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

स. क्र.	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
			अंकों में	शब्दों में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद् पानसेमल, जिला-बड़वानी.	अध्यक्ष	—	—	मिनाक्षी लोकाेश शुक्ला	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	बालीबाई केलाग्या	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	सुमित शर्मा (सोनू)	निर्दलीय
4		पार्षद	3	तीन	रेखाबाई वासुदेव चौधरी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	मंजूबाई मनोज सोनीस	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	मनोज नवल चौधरी	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	निरू बाई सुभाष	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	आशाबाई भगवान वाडिले	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	लव मोतीलाल चौहान	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	बाबुलाल (बबलु) खोरी	निर्दलीय
11		पार्षद	10	दस	अनिताबाई कृष्णा राजपुत	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	अनिता-शिवचरण-वर्मा	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	इब्राहीम गफुर जोया	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	सपना भट्ट कुलकर्णी	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	राजकुमार बाज्या	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पंद्रह	महेश गोले	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( सुनीता त्रिपाठी )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2018

क्र. एफ-65-एनएन-03-2017-पांच-116.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक-37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् राजपुर, जिला बड़वानी के माह जनवरी, 2018 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

स. क्र.	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
			अंकों में	शब्दों में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद् राजपुर, जिला-बड़वानी.	अध्यक्ष	—	—	मुकेश (पप्पु) छोगालाल कुशवाह.	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	नसीम बी-पीरन खां	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	वंदना दीपक जमरे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	नंदूबाई छगनलाल	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	खुशी राजेन्द्र यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	हुकुम नानुराम राठोड	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	इस्माईल मोहम्मद	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	मंशाराम नुरू	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	बिनुबाई कैलाश	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	चन्द्रशेखर कुशवाह (चन्दु)	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	भागवत धन्नालाल कुशवाह	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	प्रेमलाल गोविन्द खोटे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	अभय दीपचंद जैन	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	लता-शिवनारायण गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	विशाल शोभाराम पटेल	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पंद्रह	रेखा कन्हैया अग्रवाल	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( सुनीता त्रिपाठी )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.